

**September 08, 2023** 

Scrip Code- 534597 BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 RTNINDIA National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai-400 051

Sub: "Newspaper Clipping: Notice of 13<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-voting and Book Closure"

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith clippings of Notice published in newspapers on September 08, 2023, containing briefly, the details of the 13th Annual General Meeting of the Company, Book closure and other relevant information (complete information/details in the Notice of AGM, available at the link mentioned).

The same is also available on the company website <a href="www.rattanindia.com">www.rattanindia.com</a>.

You are requested to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For RattanIndia Enterprises Limited

Rajesh Arora Company Secretary

Encl: a/a

## TAMIL NADU STATE TRANSPORT CORPORATION (CBE) LTD, 37, Mettupalayam Road: Coimbatore-641 043. TENDER NOTICE

Tenders are invited for the following group of items belonging to M/s.Tamil Nadu State Transport Corporation (CBE) Ltd. Coimbatore in the government e-procurement portal.

Leyland & Tata Vehicle Spares Hardware and Paint Raw Materials --- Manufacturers

Details of the EMD, Terms & Conditions can be seen or free of cost in the Tamil Nadu Government Tender Portal www.tntenders.gov.in. Last date of receipt of tender: 29.09.2023 up to 10.00 AM

: 29.09.2023 at 2.00 PM Tender Opening Date The Management reserves the right to reject any or all tenders

without assigning any reason thereof. MANAGING DIRECTOR DIPR/4952/Tender/2023

## KAVI COMMERCIAL COMPANY LIMITED

### [CIN: U99999MH1985PLC082517] Registered off.: Viraj Impex House 47, P D' Mello Road, Mumbai-400009 Ph.: 022-61295000/23481446; E -mail id: virajimpex@virajimpex.com; Website: http://kavicommercial.com

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Saturday, September 30, 2023 at 11:00 a.m. at the registered office of the Company situated at Virai Impex House 47, P. D'Mello Road, Mumbai-400009, to transact the business mentioned in the

Members are informed that (a) the Company has completed the dispatch of the Notice of the AGM and Annual Reports containing, inter alia, the Audited Accounts for the financial year ended March 31, 2023 and the Reports of Auditors and Directors thereon by September 07, 2023 through permitted modes. (b) the Notice of the AGM and the Annual Report have been displayed on the Company's website http://kavicommercial.com

The Scrutinizer's report along with the results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be placed on the Company's website http://kavicommercial.com within 48 hours from the

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act, 2013 and other applicable provisions, if any the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 24, 2023 to Saturday, September 30, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

By Order of the Board of Directors of Kavi Commercial Company Limited

Place: Mumbai Dated: September 07, 2023

notice convening the said AGM.

Prakash R Didwania Managing Director DIN: 00225978



## MOHITE INDUSTRIES LTD.

CIN:-L40108MH1990PLC058774

Regd. Office: R. S.No. 347, Ambapwadi Phata, Off. NH-4. Post Box. No.1, Vadgaon, Tal. Hatkanangale, Dist. Kolhapur - 416 112. E-mail ID: cs@mohite.com, website:- www.mohite.com Tel.: +91 9623570707, 9922370707

## NOTICE OF THE 32<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE AND SHAREHOLDER INFO UPDATION

Notice is hereby given that the 32<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at the Registered Office of the Company at R.S. No. 347, Ambapwadi Phata, Off, NH - 4, Post Box. No.1, Vadgaon, Tal. Hatkanangale, Dist. Kolhapur 416112 in the State of Maharashtra, on Saturday, 30" September, 2023 at 11.00 a.m. to transact the business set out in the Notice of AGM.

### Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 through Electronic Mode:

The Company has sent the Notice of the AGM on Thursday, 7th September, 2023 through electronic mode to the members whose email addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the MCA's General Circulars & SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May, 2022. Shareholders may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the website of the Company ( at www.mohite.com ), the website of BSE Limited at www.bseindia.com ) and on the website of Depository Central Depository Services (India) Limited (CDSL) ( at www.evotingindia.com).

## E-Voting Instructions:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI ( Listing Obligations and Disclosure Requirements ) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ( 'remote evoting'), provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL ) and the businesses may be transacted through such voting.

## All the shareholders hereby informed that

- 1. The cut-off date for determining eligibility for to vote by electronic means or at AGM is Friday, 22"d September, The remote e-voting shall commence on Wednesday, 27<sup>th</sup>
- September, 2023 at 09.00 AM and ends on Friday, 29th September, 2023 05.00 PM. The remote e-voting module will be disabled thereafter. A person other than individual shareholder holding demat
- shares who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the Login ID and Password by sending a request to Central Depository Services (India) Limited (CDSL) CDSL at the e-mail ID helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- However, if the person other than individual shareholder holding demat shares is already registered with CDSL for remote e-voting then the Existing User ID and Password can be used for casting vote.
- The individual shareholder holding demat shares shall follow the procedure as described in point no 20 of Notes to Notice of AGM for making the e-voting.
- Once the vote cast on resolution cannot be changed subsequently
- The facility for voting through Ballot / Polling Paper shall be made available at AGM.
- Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The instructions for members for voting electronically are given in Notice of AGM. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

## Intimation of Book Closure:

As per Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Friday, 22nd September, 2023 to Saturday, 30" September, 2023 (both days inclusive) for Annual Book Closure purpose.

### Appeal to Shareholders to Register their E-mail ID and Update their Information:

Shareholders who have still not registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered at earliest as follows:

Shareholders holding Shares in Physical Mode: Such Shareholders are requested to register their e-mail ID with the RTA of the Company, viz., Link Intime India Pvt. Ltd. along with the copy of the signed request letter mentioning the Name and Address, E-mail ID and Mobile No. of the Shareholder, Scanned Copy of the Share Certificate ( front and back ), Self-Attested Copy of the PAN Card, and Self-Attested Copy of any Document (e.g. Driving License, Election Identity Card, Passport, Aadhar Card ) and other Documentary Proof in support as required by sending request it to our RTA, Link Intime India Private Ltd., Unit: Mohite Industries Limited, C- 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikroli (West), Mumbai-400083.

Ph. No. (022) 49186000, E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

Place: Vadgaon, Kolhapur.

Date: 07.09.2023.

financialexp.epapr.in

Shareholders holding Shares in Dematerialized Mode: Such Shareholders are requested to register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s).

Members are also requested to intimate changes, if any, pertaining to their Name, Postal Address, E-Mail ID, Mobile No. PAN, Mandates, Nominations, Power of Attorney, Bank Account Details such as Name of the Bank and Branch Details. Bank Account No., MICR Code, IFSC Code, etc., to their respective DPs in case the shares are held by them in dematerialized form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

> By order of the Board SHIVAJI MOHITE

MANAGING DIRECTOR

INLAND PRINTERS LIMITED Regd. office: 800, Sangeeta Ellipse, Sahakar Road, Vile Parle (East), Mumbai-400057 E-Mail: inlandprintersltd@gmail.com Website: www.inlandprinters.in Tel No: + (022)-40482500 CIN: L99999MH1978PLC020739 NOTICE OF 43<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, **E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE DATE** 

NOTICE is hereby given that; 1. 43<sup>rd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 29<sup>th</sup> September, 2023 at 12.00 p.m. IST through Video Conferencing ('VC')/other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the Ordinary business, as set out in the Notice of 43<sup>rd</sup> AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation, 2015 read with MCA Circulars 14/2020 dated 08.04.2020, 17/2020 dated 13.04.2020, 20/20 dated 05.05.2020, 28/2020 dated 17/08/2020 02/2021 dated 13/01/2021, 19/2021 dated 08.12.2021, 21/2021 dated 14.12.2021 02/2022 dated 05.05.2022 and 10/2022 dated 28.12.2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India vide its Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 ('SEBI Circulars'), which have allowed the Companies to conduct the AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) during the calendar year 2023, without the physical presence of Members at a common venue.

In terms of MCA Circular/s and SEBI Circular, the Notice of the 43rd AGM and the Annual Report for the financial year ending 2023 including Audited Financial Statement for the year ended 31st March, 2023 ('Annual Report') has been sent by email on 6th September, 2023 to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) as on 1<sup>st</sup> September, 2023. (Ben Pos date). The requirement of sending physical copy of the notice of the 43<sup>rd</sup> AGM and the annual report to the members have been dispensed with vide MCA circular/s and SEBI Circular.

. Members holding shares in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 22<sup>nd</sup> September, 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary business as set out in the notice of 43<sup>rd</sup> AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services Limited ('CDSL'). All the members are informed that: i. The Ordinary business as set out in the notice of 43<sup>rd</sup> AGM will be transacted through

voting by electronic means ii. The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 26th, 2023 at 9.00 a.m. (IST)

iii. The remote e-voting shall end on Thursday, September 28th, 2023 at 5.00 p.m. (IST) iv. The cut-off date, to determine the eligibility for e-voting through remote e-voting or through e-voting system during 43<sup>rd</sup> AGM is **22<sup>nd</sup> September, 2023** 

v. Any person who becomes member of the company after sending the notice of 43<sup>rd</sup> AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 22<sup>nd</sup> September, 2023 may obtain the login id and password by sending a request at www.evotingindia.com. However, if a person is already registered with the CDSL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote

vi. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and re-opened during the AGM for the Members who are present through VC or OAVM and have not cast their vote. Only those Members, who will be present in the AGM through VC or OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system during the AGM

on the website of BSE www.bseindia.com, on the website of CDSL www.evotingindia.com. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting

vii. The notice of 43<sup>rd</sup> AGM is available on the website of the Company www.inlandprinters.in

manual available at www.cdslindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. . The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Saniay Shriangarpure.

Partner, PRS Associates, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting at AGM in a fair and transparent manner.

. Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, 27th September, 2023 to Thursday, 29th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

For Inland Printers Limited

Date: 06<sup>th</sup> September 2023 Place: Mumbai

**Bhumi Mistry Company Secretary & Compliance Officer ACS No.: 60337** 

## RattanIndia

## RattanIndia Enterprises Limited (CIN: L74110DL2010PLC210263)

Registered Office: 5th Floor, Tower-B, Worldmark 1 Aerocity New Delhi -110037, Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777 Website: www.rattanindia.com, E-mail: rel@rattanindia.com

## NOTICE OF 13<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 13<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of RattanIndia Enterprises Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 04:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM) facility without the physical presence of the shareholders at a common place, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder read with General Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular no. 20/2021 dated December 08, 2021, 3/2022 dated May 05, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 read ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the businesses set out in the Notice dated Wednesday, September 06, 2023 calling AGM. The deemed venue for the proceedings of AGM shall be the registered office of the Company. Members intending to attend the AGM, may follow the procedures prescribed in the Notice of the 13" AGM.

The Company has, in compliance with MCA Circular and SEBI circular, sent the Notice convening the AGM and the Annual Report for the FY 2022-23, on Thursday, September 07, 2023, through electronic mode to those members whose e-mail address is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants as on cut-off date i.e. Friday, September 01, 2023. The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report has also been Completed on Thursday, September 07, 2023.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulation), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered Friday, September 22, 2023, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders holding shares either in physical or dematerialization form, to cast their right to vote electronically on the business set out in the Notice. The procedure/instructions for electronic voting, including the process for obtaining the Login credentials for those shareholders whose e-mails are not registered either with the Company/RTA or their respective DPs, is contained in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and Annual Report, along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website www.rattanindia.com and also at https://evoting.kfintech.com (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting) and also on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The remote e-voting period will commence on Tuesday, September 26, 2023 (10:00 A.M. IST) and end on Thursday, September 28, 2023 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to evoting@kfintech.com. The Members present through VC/OAVM and had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM, but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of AGM.

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 42 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, KFin Technologies Limited at evoting@kfin.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Limited, (Unit: RattanIndia Enterprises Limited), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Toll Free No. 1800-345-4001.

Place: New Delhi

Date: 07.09.2023

**PUBLIC NOTICE** TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate of M/s Orbit Exports Limited (name of Company) having its Registered Office at 122, 2nd Floor, Mistry Bhavan, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400020

Registered in the name of the following Shareholder/s, i.e., Mr. Pranay Hemani and Mr.Bharat Hemani, have been lost by them.

Sr. No.	Folio No.	Certificate No./s	Distinctive No.s From - To	No. of Shares
1.	0007662	15628	3430701 - 3430800	100
2.	0007662	15629	3430801 - 3430900	100
3.	0007662	15630	3430901 - 3431000	100
4.	0007662	15631	3431001 - 3431100	100
5.	0007662	15634	3431301 - 3431400	100
6.	0007662	15642	8581300 - 8581549	250
The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above				

referred share certificates. Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents Link Intime India Private Limited C-101, 247 Park, 1st Floor, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s. Name of Legal Claimant Date: 08.09.2023, Place: Mumbai Pranay B. Hemani

### WHITE ORGANIC AGRO LIMITED 312A, Kailas Plaza, Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (East), Mumbai - 400 077. INDIA

Tel: +91.22.25011983 | Fax: +91.22.25011984 | Web: www.whiteorganicagro.com | Email: info@whiteorganicagro.com; CIN: L01100MH1990PLC055860 Notice of 33<sup>™</sup> Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ('AGM') of White Organic Agro Limited will be held on Saturday, September 30, 2023, at 10:00 A.M. vide VC / OVAM

mode, to transact business as detailed in the notice dated September 05, 2023. We have completed mailing of notice of AGM to the members individually through permitted modes together with the annual report containing audited financial statements for the financial year ended March 31, 2023, Auditor's Report and Board's Report and other supporting documents as required on 06th September, 2023. These documents have been sent electronically to those members who have registered their e-mail addresses. These documents are also available on www.whiteorganicagro.com and alternately you may download the same from e-voting portal https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Standard-2 of the Secretarial Standard on General Meetings and in wake of MCA relaxations applicable until September 30, 2023; the items of business to be transacted at the meeting may be transacted through electronic means. The Company is pleased to provide e-voting facility to all its members to exercise their right to vote on the resolutions through E-Voting platform ("remote e-voting") and voting during the AGM provided by Central Depository Services Ltd. ('CDSL'), The members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Saturday, September 23, 2023 are entitled to avail the facility of remote e-voting. Eligible members who have acquired shares on or after the dispatch of notices and up to the cut-off date may approach CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.co.in for issuance of User ID and Password for exercising their right to vote by remote e-voting. Members are requested to follow the instructions available in the AGM Notice dated 05 September, 2023 which can also be downloaded from www.whiteorganicagro.com In view of COVID-19 global pandemic, the general meetings of the companies shall be conducted as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No 10/2022 dated December 28th 2022 read with SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, MCA and SEBI by Circular No. 2/2021 dated 13th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 (Extended until September 30, 2022; vide MCA and SEBI by Circular No. 3/2022 dated 5th May, 2022 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January 2023 providing clarity and relaxation on conducting AGM respectively (the said Circulars) and the Notice of AGM along with Annual Report have been sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses were registered with the Company as on September 01, 2023, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not

Standard Time) and ends on Friday, September 29th 2023 (5.00 p.m. Indian Standard Time) the members who do not cast their vote on the said date will be allowed to vote at the AGM, however will not be allowed to cast votes twice. In case of any query pertaining to e voting please visit Help & FAQ's section available at CDSL website helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any other query/ grievances connected to remote e-voting, you may write to Mr. Rakesh Dalvi, Manager at CDSL at A-Wing, 25th Floor Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai 100013 or contact at number 1800225533 or at email: helpdesk.evoting@cdslindia.com. The facility for voting through poll paper shall be made available at the AGM. For White Organic Agro Limited

The e-voting period commences on Wednesday, September 27th 2023 (9.00 am Indian

---Sd/--Mr. Darshak Rupani Managing Director DIN: 03121939

Place: Mumbai

Date: 06.09.2023



## Regd. Office: 2102, Floor-21st, Plot-62, Kesar Equinox, Sir Bhalchandra Road,

Hindu Colony, Dadar (E), Mumbai - 400 014. Email: investorrelations@mepinfra.com | Website : www.mepinfra.com

Tel.: 91 22 2414 2776 | Fax: 91 22 2414 4454 NOTICE OF THE 21ST ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE

## OF REGISTER OF MEMBERS AND E-VOTING INFORMATION NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 21ST Annual General Meeting ("AGM") of MEP

Infrastructure Developers Limited will be held on Saturday, the 30th day of September, 2023 at 11.30 a.m. through video conferencing ("VC")/ other audio visual means ("OAVM") without physical presence of members of the Company at common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under, the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") vide its General Circulars No. 14/2020 No. 17/2020, No. 20/2020 No. 02/2021, 02/2022 and 10/2022 & 11/2022 dated 8th April, 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 5th May 2022 and 28th December, 2022 respectively and other applicable circulars, (hereinafter, collectively referred as the "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated 5th January, 2023, 12th May 2020, 15th January 2021 and 13th May 2022 respectively and other applicable circulars (hereinafter collectively referred as the "SEBI Circulars") permitted the holding of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a

In compliance with these Applicable Circulars, the 21st AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM without the physical presence of the members at the venue. Hence, the Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The instructions for Joining the AGM will be provided in the Notice of AGM.

The Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2023 including Notice convening the 21st Annual General Meeting has been sent to those members electronically whose e-mail id's are registered with the Depository Participant or the Company in accordance with the MCA Circulars mentioned above. These documents are also available on Company's Website https://www.mepinfra.com, website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com BOOK CLOSURE

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive), for the purpose of 21stAGM.

## VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE

In accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the members with the facility to cast their votes electronically ("Remote e-voting) through e-voting service ("e-voting") provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The members whose names will appear in the Register of the Members/list of Beneficial Owners as on the cut-off date Saturday, 23rd September, 2023 are entitled to avail the facility of remote evoting or e-voting. Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 1st September, 2023 have been provided the user ID and password to cast their votes electronically. Eligible members who have acquired shares after the said date may approach NSDL at evoting@nsdl.co.in for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by e-voting. If the member is already registered with NSDL for evoting then he can use the existing User ID and Password for casting the vote through e-voting. Members are requested to follow the instructions available in the AGM Notice dated 5th September, 2023, which can also be downloaded from https://www.mepinfra.com and from the

The e-voting period commences on Wednesday, 27th September, 2023 at (IST) 9.00 a.m. and will end on Friday, 29th September, 2023 at (IST) 5.00 p.m. The Members will not be able to cast their vote after the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The voting facility through electronic voting system shall be made available during the AGM and members attending the meeting through VC/OAVM who have not casted their vote by remote evoting and are otherwise not barred from doing so shall be able to exercise their vote. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend AGM but shall not be entitle to cast their vote again.

Members, who hold shares in physical form and have not registered their email address with the Company may register their email ID by providing Folio No., Name of shareholder, share certificate No., PAN, Mobile and email ID to investorrelations@mepinfra.com. Members holding shares in dematerialized form may update their email address with their Depository Participant. The said members can cast vote through remote e-voting or evoting during the AGM in the manner as specified in the Notice.

Place: Mumbai

Date: 06/09/2023

investorrelations@mepinfra.com.

SCRUTINIZER

The Company has appointed CS Shridhar Phadke, Practicing Company Secretary, SVP & ASSOCIATES (Membership No. FCS 7867 CP No. 18622) to act as a Scrutinizer for conducting the voting and e-voting process in a fair and transparent manner. CONTACT DETAILS

In case of grievances connected with e-voting, the members can refer to the Frequently Asked

Questions (FAQs) and e-voting user manual, available at the Downloads sections of

https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at 022 4886 7000 and 022- 2499 7000.

Alternately, the members can also address the grievances to the Company Secretary at By Order of the Board of Directors of MEP INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

## FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

THE INDURE PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS Name of corporate debtor

THE INDURE PRIVATE LIMITED 22.04.1970

RoC - DELHI Authority under which corporate debtor

4. Corporate Identity No. / Limited Liability U74899DL1970PTC005272 Identification No. of corporate debtor Indure House, G.K. Part II, New Delhi - 110048

5. Insolvency commencement date in Date of Order: 05.09.2023 respect of corporate debtor Date of receipt of order: 05.09.2023 (through NCLT Website)

Estimated date of closure of insolvency resolution process Name and registration number of the Name: Mr. Vinod Radhakrishnan Nair insolvency professional acting as

Address and e-mail of the interim Regd. Address: A-108, Om Rachana CHS, Sector-17, resolution professional, as registered Vashi, Navi Mumbai - 400705. with the Board Regd. Email: vinod@nairca.com 10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim

resolution professional Correspondence Email: Cirpindure2023@gmail.com 19.09.2023 (14 days from appointment of IRP) Last date for submission of claims Not Applicable as per Information available with IRP 12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution

13 Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class) 14 (a) Relevant Forms and Web Link: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details of authorized representatives Physical Address: Not Applicable

The creditors of THE INDURE PRIVATE LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 19.09,2023 to the Interim Resolution Professional at the address The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other

creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditors belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against. entry No. 13 to act as authorized representative of the class in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Date: 08/09/2023

VEEKAYEM FASHION AND APPARELS LIMITED

Vinod Radhakrishnan Nai Interim Resolution Professiona



Place: MUMBAI

## REGD. OFF.: - 113, UDYOG BHAVAN, SHARMAIND, ESTATE. WALBHAT ROAD, GOREGAON EAST, MUMBAI - 400063,

Telephone No. 022-40351414, 40351481

NOTICE FOR 38™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT: 1. The Thirty Eighth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on

situated at 113, Udyog Bhavan, Sharma Ind. Estate, Walghat Road, Goregaon East, As per MCA Circulars and SEBI Circulars, The Notice of Annual General Meeting with Annual Report of the year 2022-23 is required to send through electronic mode only and

Saturday, 30th September, 2023 at 03:00 P.M. (IST) at the registered office of the Company

The Company has set 23<sup>rd</sup> September 2023 as the "Cut-off-Date" for taking records of the shareholders of the Company who will be eligible for casting their vote on the resolutions to be passed in the 38th Annual General Meeting. Any person who is a

Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rule thereunder, the register of members and share transfer book for Equity Shares of the Company will remain closed from Saturday, 24th September 2023 to Friday, 30th September

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Applicable Circulars, the Company is pleased to provide the Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting) of KFIN Technologies Limited (KFIN) for the businesses to be transacted at the AGM. The remote e-voting period commences on Wednesday, 27th September, 2023 (9:00 A.M. IST) and ends on Friday, 29th September, 2023 (5:00 P.M. IST). The e-voting module shall be disabled by KFIN for voting thereafter. The facility for voting shall also be made available at the AGM for the Members who have not already cast their votes prior to the AGM by remote e-voting. The detailed procedure for e-voting is given in the AGM Notice. Once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change

The person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at AGM. Any person who becomes a member of the Company after the notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off i.e. Saturday, 23rd September, 2023 may obtain the User ID and Password by sending an email request to

For the process and manner of E-voting, Members may go through the instructions mentioned in AGM Notice. In case of any queries/grievance connected with e-voting, please contact:

Selenium Tower B. Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 India or send an email to einward.ris@kfintech.com evoting@kfintech.com or call 1800-309-4001.

Company Secretary Date: 07th September 2023

Registered Office: Shop-10, PL-22 Lakhanis Dolphin Sector-13, New Panvel. Raigarh, Navi Mumbai-410206 (Maharashtra) CIN: L63040MH1989PLC364261 Tel.:022-27469921

## Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Company is scheduled

to be held on Saturday, 30th September, 2023 at 1:00 P.M. at Shop-10, PL-22 Lakhanis Dolphin Sector-13, New Panvel, Raigarh, Navi Mumbai-410206 (Maharashtra) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to transact the business as set out in the notice calling 34th Annual General Meeting of the Company which has being dispatched to the members of the company by e-mail along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23.

of the company whose email is registered with the company/RTA/Depository participants, the same will be available on the website of the Company https://www.yaanenterprises.com and will also be available on the website of stock exchange i.e., BSE Limited Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the companies (Management and Administrations) Rules, 2014 as amended from time to time and the provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote E-voting services provide by CDSL on all ordinary and special business set forth in the notice of 34th AGM.

paid up equity share capital of the company as on, Saturday 23rd September, 2023. THE MEMBERS ARE HEREBY REQUESTED TO NOTE THAT: a) The remote e-voting portal /facilities shall remain open from Wednesday 27th September.

2023 at 9:00 AM to Friday 29th September, 2023 at 5:00 PM. The remote e-voting shall not be allowed beyond the prescribed date and time mentioned above. A person, whose name is recorded in the Register of Members /Beneficial owners maintained by the depositories /RTA as on cut-off date i.e., Saturday 23rd September, 2023 shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting and voting during AGM. A person

who ceases to be a member as on Cut-off date should treat this Notice for information

) The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The member, who are entitled to vote but have not exercised their right to vote through remote e-voting, may vote during AGM.

d) Any person who become the member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e., Friday, 1st September, 2023 may obtain the User Id and Password by sending the request to helpdesk.evoting@cdslindia.com the detailed procedure for obtaining User Id and Password is also provided in the notice MANNER OF REGISTERING / UPDATING EMAIL ADDRESSES IS AS BELOW:

shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email id. P. For Individual Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your

For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of

respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository. Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 and Rules

framed there under and Regulations 42 of SEBI (LODR) REGULATIONS 2015, the

Register of Members and Share Transfer Books of the company remains closed from 24th

September, 2023 to 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 34th

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) at toll free no. 1800 22 55 33.

For Yaan Enterprises Limited Ranjith Soman

Place: Raigarh, Navi Mumbai COMPANY SECRETARY Date: 07.09.2023

Sd/-

VIKRAM MUKADAM

(Managing Director)

For RattanIndia Enterprises Limited

Rajesh Arora Company Secretary

interim resolution professional

Date of incorporation of corporate is incorporated / registered Address of the registered office and

principal office (if any) of corporate

03.03.2024 (180 days from the date of order) Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01352/2018-19/12083

Correspondence Address: A-108, Om Rachana CHS, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai - 400705.

Not Applicable as per Information available with IRP

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (NCLT), Delhi Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process against THE INDURE PRIVATE LIMITED by order dated 05.09.2023; copy made ready and communicated on 05.09.2023

IBBI/IPA-001/IP-P01352/2018-19/12083

MAHARASHTRA, INDIA Email: admin\_mumbai@vkmgroups.biz Website: www.vkmgroups.com CIN: U17120MH1985PLC037516

accordingly, Annual Report 2022-23 along with the Notice convening AGM is sent to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company Depositories and Share Transfer Agent as on 01st September 2023. Annual Report Along with the Notice is available on the website of the Company www.vkmgroups.com

member of the Company on Cut-off date, is eligible to attend and cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of Annual General Meeting. Pursuant to regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements)

einward.ris@kfintech.com/evoting@kfintech.com

KFin Technologies Limited

For Veekayem Fashion and Apparels Limited Place: Mumbai Gopika Singh

## Yaan Enterprises Limited (Formerly Known as Crown Tours Limited)

Website: https://www.yaanenterprises.com/, E-mail: finance@yaanenterprises.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE

The company has completed the electronic dispatch of the notice of 34th AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 on Wednesday, 06th September, 2023 to the members

The Board of Directors has appointed B.K. Sharma & Associates, Practicing, Company Secretaries as scrutinizer for conducting the voting in fair and transparent manner. The voting rights of Members shall be in proportions to the equity shares held by them in the

## जनसता

## अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड

(CIN:L65100DL1984PLC018748) पंजी. कार्या. : एस-524, 1ला तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं (उन्तालिस वीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) शनिवार 30 सितम्बर 2023 को 09.30 बजे पूर्वा. में ''एस–524, 1ला तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092'' में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सूचना, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ शुक्रवार, 01 सितम्बर 2023 को पंजीकाओं में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी गई है, में वर्णित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा। कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रिजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां शनिवार 23 सितम्बर 2023 से शनिवार 30 सितम्बर 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगी। अधिनियम की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा साधारण सभा पर सचिवालयी मानक के मानक—2 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''रिमोट ई–वोटिंग'') द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः

- बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 (9.00 बजे पूर्वा.)
- रिमोट ई—वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 (5.00 बजे सायं)
- मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023
- एजीएम में, सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों को, मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- जो सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे।
- एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.abhinavleasefinltd.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
- यदि ई—वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप www.evotingindia.com के सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध तीव्रतापूर्वक पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई—वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं।

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड

हस्ता./-

ममता अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

| दिनांक: 06.09.2023 स्थानः दिल्ली

## RattanIndia

## रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड

(CIN: L74110DL2010PLC210263)

पंजीकृत कार्यालय : पाँचवीं मंजिल, टावर-बी, वर्ल्डमार्क 1 एरोसिटी नई दिल्ली -110037 फोन :011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindia.com, ई-मेल: rel@rattanindia.com

## 13वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड (कंपनी) की 13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 29, 2023 को शाम 4:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजअल मीन्स ("ओएवीएम") सविधा के माध्यम से शेयरधारकों की एक सामान्य जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। सामान्य परिपत्रों संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के साथ अन्य संबंधित परिपत्रों के साथ पठित, सामान्य परिपत्र संख्या सहित 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 पठित ("एमसीए परिपत्रों") और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के रूप में संदर्भित के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या के अनुपालन में बुधवार, दिनांक सितम्बर 06, 2023 के एजीएम नोटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेतु एजीएम बुलाई गई है। एजीएम की कार्यवाही के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य

कंपनी ने एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्टार और शेयर टान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी के पास कट-ऑफ तारीख यानि गुरूवार, दिनांक सितम्बर 07, 2023 को पंजीकृत हैं उन्हें एजीएम की सूचना तथा 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 01, 2023 को भेजी जा रही है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण भी गुरूबार, दिनांक सितम्बर 07, 2023 को पूरा

13वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 समय -समय पर संशोधित के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44 के अनुसार कंपनी का रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजंट, केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड (केफिन ) के द्वारा नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रहा है । इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता (भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर) नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ तिथि शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 22, 2023 रहेगी । दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग की प्रक्रिया निर्देश लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल कंपनी आरटीए या उनके संबंधित डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है वह एजीएम नोटिस में निहित है ।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाईट www.rattanindiapower.com तथा https://evoting.kfintech.com (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाईट) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है । दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक सितम्बर 26, 2023 को सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगी और गुरूवार, दिनांक सितम्बर 28, 2023 को शाम 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी । दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा । किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं । जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा । जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता हैं, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्टोनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री.संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है ।

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी के शेयर ट्रान्सफर पुस्तक शनिवार, सितम्बर 23, 2023 से शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रेहेंगी।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, उप-महाप्रबंधक, केफिन टेनोलोजिज लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1800-345-4001. तथा evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, गाचीबावली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500 032, तेलंगाना पते पर भी लिख सकते है ।

कृते रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड

राजेश अरोरा स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 07.09.2023

## एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः २५, सी-ब्लॉक सामुदायिक केंद्र, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 वेबसाइटः http://www.spacapital.com/CapitalServices/, सीआईएनः L65910DL1984PLC018749 फोनः 011-45675500 ई-मेल आईडीः listing@spacapital.com

## 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

- एतददारा सचना दी जाती है कि: 1. एसपीए कैंपिटल सर्विसेज लिमिटेंड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक उसके पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को प्रात: 11:00 बजे, नोटिस में निर्दिष्ट किए अनुसार व्यावसायिक लेनदेन करने के लिए आयोजित की
- कंपनी ने उन सभी सदस्यों को एजीएम के नोटिस में शामिल वार्षिक रिपोर्ट प्रेषण का काम 6 सितंबर 2023 को पूरा कर लिया है, जिनके नाम भौतिक रूप में शेयरपारक सदस्यों के रजिस्टर में दर्शाये गये हैं और डीमैट शेयरपारकों के मामले स्वीकृत मोड के माध्यम से एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट http://www.spacapital.com/CapitalServices/ पर प्रदर्शित किया गया है और वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिक्तों पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एजीएम की तारीख तक सदस्वों द्वारा निरीक्षण करने के लिए भी उपलब्ध
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के सहपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के विनियम 42 के अनुसार, शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को आयोजित की जाने वाली कंपनी की एजीएम के उद्देश्य हेतु सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स रविवार, 24 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक बंद रहेंगे।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के सहपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और संबी (सुवीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, सदस्यों को नोटिस में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर एजीएम (रिमोट ई-वोटिंग) आयोजन स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य रुवान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डाजने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके लिए कंपनी ने ई—वोटिंग एजेंसी के रूप में सीबीएसएल की सेवाएं प्राप्त की हैं। इसके अतिरिक्त, एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान ढालने की सुविधा भी ज्यलब्द होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम के आयोजन से पहले ही रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट *काल दिया है* वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं. लेकिन उन्हें एजीएम में अपना वोट बालने का हक नहीं होगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि बचवार, 27 शिलंबर, 2023 को प्रात: 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होकर शुक्रवार, 29 शिलंबर, 2023 को सांयः 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के जिन सदस्यों के पास रविवार, 24 सितंबर, 2023 की अंतिन तिथि तक भौतिक या डीमटेरियलाइज़्ड रूप में शेयर रखे हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से अपने वोट ढाल सकते हैं। सदस्यगण ध्यान दें, कि मुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को सांय: 5:00 बजे के बाद उन्हें रिमोट ई—वोटिंग
- ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, सदस्य 'सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू)' और सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.co.in पर उपलब्ध 'ई-वीटिंग यूजर मैनुअल' का संदर्भ लेकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं या किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए helpdesk,evoting@cdslindia.com पर ईमेल
- लिखकर या कंपनी को ईमेल listing@spacapital.com पर संपर्क करें। 6. ई-बोटिंग के नतीजे कंपनी की एजीएम में या उसके बाद घोषित किए जाएंगे और कंपनी/आरटीए/एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 07-09-2023

कते एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड,

हस्ता / संदीप परवाल,

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ढीआईएन 00025803

## त्रिदेव इन्फ्राइस्टेट्स लिमिटेड (CIN: L65100DL1988PLC033812) पंजी. कार्या.: एस-524, एफ/एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092 आईएन

त्रिदेव इन्फ्राइस्टेट्स लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 9.35 बजे पूर्वा. में एस-524, 1 ला तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सूचना जो शुक्रवार, 1 सितम्बर, 2023 को पंजी. में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी गई है, में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ( अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 से शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। अधिनियम की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के यिम 20 तथा साधारण सभा पर सिचिवालयी मानक के मानक-2 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''रिमोट ई–वोटिंग'') द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

- रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 ● रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023
- मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार
- एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा
- उपलब्ध कराई जाएगी जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थिति हो
- सकते हैं, लेकिन सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। • एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.abhinavleasefinltd.in तथा
- सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently

Asked Questions ("FAQs") तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं। त्रिदेव इन्फ्राइस्टेट्स लिमिटेड के लिए

तिथि: 6.9.2023 स्थानः दिल्ली

सुनील कुमार अगरवाल प्रबंध निदेशक

## NOVGFL आईनॉक्स लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड रजि. कार्यालयः आईनॉक्सजीएफएल ग्रुप, 612-618, नारायण मंजिल, 6वीं मंजिल, 23, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001, सीआईएनः य्65910डीएल1995पीएलसी397847

ई-मेलः inoxgroup@gfl.co.in; वेबसाइटः www.ilfl.co.in

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे, स्थान 612–618, नारायण मंजिल, 6वीं मंजिल, 23, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली– 110001 में दिनांक 28 अगस्त, 2023 के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी।

28वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग विवरण की की सूचना

वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 05 सितंबर, 2023 को स्पीड पोस्ट द्वारा और 06 सितंबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं।

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पससिण्बवण्पद पर भी उपलब्ध है।

इसके अलावा यह भी अधिसूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें 23 सितंबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक (दोनों दिन सम्मिलित) तक वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए से बंद रहेंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सविधा प्रदान कर रही है।

ई-वोटिंग का विवरण नीचे दिया गया है:

रिमोट ई–वोटिंग की शुरूआत बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा मा स.)

ई—वोटिंग के लिए पात्रता गुरूवार, 21 सितम्बर 2023

निर्धारित करने की अंतिम तिथि

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुक्रम 230828028 संख्या (ईवीएसएन)

कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य केवल एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट देने के हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 29 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे के बाद सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में भाग लेकर एजीएम के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, www.evotingindia.com पर सदस्य सहायता अनुभाग के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग मैनुअल देख सकते helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं।

केवाईसी विवरण का अद्यतनीकरण जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपना केवाईसी विवरण पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द कंपनी के साथ अपना पैन, पता, ई-मेल

आईडी, बैंक खाता और नामांकन विवरण आदि अद्यतन करें।

स्थानः नई दिल्ली

कृते आईनॉक्स लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड हस्ता /-

डी.के. जैन निदेशक

स्थान : हरियाणा

दिनांक : 07-09-2023

दिनांकः 08 सितंबर, 2023

डीआईएनः 00029782

पंजीकृत कार्यालयः बी1/26, सेक्टर-18, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301 सीआईएन नं.: L25201UP1992PLC018150, दूरभाष नं.: +91 84477 72518 वेबसाइटः www.sudev.co.in, ई-मेलः info@sudev.co.in

सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की **30वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 28 सितंबर 2023 को** शाम 04:00 बजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित होने वाली है। 30वीं एजीएम की सूचना सहित वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं,जिन्होंने डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की हैं। यह विवरण कंपनी की वेबसाइट www.sudev.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

बुक बंदी :एतद्वारा नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और ्र प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से **शनिवार, 23 सितंबर 2023 से गुरुवार, 28 सितंबर 2023 (दोनों** –मतदान : कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,2014 के नियम 20 और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण

आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई—वोटिंग") द्वारा 30वीं एजीएम में मतदान करने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा

सभी सदस्यों को सचित किया जाता है: क. एजीएम की सुचना में निर्धारित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जा सकता है। ख. रिमोट ई—वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि और समयः **सोमवार, 25 सितंबर 2023 प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी)** ग. रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समयः बुधवार, 27 सितंबर 2023 को शाम 05:00बजे(आईएसटी)।

**घ.** इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथिः **गुरुवार, 21** 

शेयर पंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा। च. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और बैठक की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी **गरुवार. 21 सितंबर 2023** के अनसार शेयर रखता है वह beetal@beetalfinancial.com पर अनुरोध भेजकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

**छ. गुरुवार, 27 सितंबर 2023 को शाम 5.00 बजे** के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अ. एक व्यक्ति. जिसका नाम कट—ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी में रखे गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह ही एजीएम में मतदान के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने

(फर्म पंजीकरण संख्या +2020एपी728600), तेलंगाना को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में संवीक्षक नियुक्त

www.bseindia.com पर उपलब्ध है। ्यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है,तो आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के तहत पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिखें या श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क करें।

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

## सबरामाला इडस्ट्राज इंडिया CIN:L74110DL1984PLC018467

पंजी. कार्या. 906, डी-माल, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034 फोन: 011-41514958, ई-मेल: cs@sabrimala.co.in, वेबसाईट: www.sabrimala.co.in

39वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग तथा

पुस्तक बंद होने की सूचना एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार,

29 सितम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वा. में विडियो कान्फ्रैसिंग (''वीसी'')/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्युलर्स (''एमसीए सर्क्युलर्स'') के साथ पठित अधिनियम के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

के स्टैंडएलॉन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ सभा में निष्पादित होने वाले साधारण तथा विशेष व्यवसायों से यक्त सभा के सचना की भौतिक प्रति ऐसे सदस्यों को डाक द्वारा उनके संबंधित पंजीकृत पते पर भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण के पास पंजीकृत नहीं कराये हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कट-ऑफ तिथि 01.09.2023 को कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास पंजीकृत हैं।

नहीं हैं, से अनुरोध है कि अपने नाम, सम्पूर्ण पते, फोलिओ नम्बर कम्पनी में धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति तथा अधोलिखित किसी एक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पास्पोर्ट, उपयोगिता बिल अथवा कम्पनी में यथा पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में किसी अन्य सरकारी दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति यथा शीघ्र भेजकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करा लें। डिमैट पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्य अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना ईमेल पता अध्यतन का सकते हैं। इमेल पते के पंजीकरण में किसी प्रकार की समस्या के लिये सदस्य admin@skylinerta.com पर कम्पनी के आरटीए को लिख सकते हैं।

द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा उसके लिये विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पूर्वा. में (आईएसटी) में शुरू होगी तथा गुरुवार, 28 सितम्बर, 2023 को 5.00) बजे अप. (आईएसटी ) में बंद होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 को शेयर धारिता करने वाले कम्पनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के समय में ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

सभा के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें रविवार, 24 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 (दोनो दिवस सिहत) तक बंद रहेंगे। सबरीमाला इंडस्टीज इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के लिये

तिथि: 6.9.2023 राधिका तोसनीवाल

जीनोमिक वैली बॉयोटेक लिमिटेड पंजी. कार्या.: 4 के. एम. स्टोन, बेरी छर्रा मार्ग, तहसील-बहादुरगढ़, जनपद-झज्जर, हरियाणा-124507 सीआईएनः एल01122एचआर1994पीएलसी033029, दूरभाषः 91-9811341542 ईमेलः genomicvalley@gmail.com, विजिटः http://www.genomicvalley.com वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और

बही बंद करने की सूचना

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना, उन सभी सदस्ये को भेजा गया है जिन्होंने अपने पंजीकत पते पर इसकी भौतिक प्रतियां मांगी हैं और अन्य सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजा गया है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं और सूचना कंपनी की वेबसाइट www.genomicvalley.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम)

के अनुसार, यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की पंजिका और अंश हस्तांतरण बहियां रविवार 24 सितम्बर, 2023 से शनिवार, 30 सितम्बर 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी 23,09,2023 (कट—ऑफ तिथि) वे अनुसार भौतिक रूप से या अभौतिक में शेयर रखने वाले अपने सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराकर न है ताकि वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिं मेवा के माध्यम से लेनदेन किए जा सकने वाले व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने में सक्षम

(क) सुचना के प्रेषण की पूर्णता की तिथि : गुरुवार , 07 सितम्बर 2023 (ख) ई—वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि और समय ः बधवार २७ सितम्बर २०२३ को प्रातः ९:०० बजे (ग) ई–वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समय : शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 को सायं 5:00 बजे जिन सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा तक पहुंच नहीं है, उनके लाभ के लिए एजीएम की सूचना

हों। ई–वोटिंग के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। अधिनियम के प्रावधानों और उक्त नियमावली के

के साथ फिजिकल बैलेट फॉर्म भेजा गया है। विधिवत पूर्ण भौतिक मतपत्र 29 दिसंबर 2023 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाएगा। सदस्यगण ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा ई–वोटिंग की अनुमति 29 दिसंबर 2023 को सायं 5.00 बजे तक दी जाएगी। कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग और फिजिकल बैलट प्रक्रिया के संचालन

नियुक्त किया है। मतपत्र / पोल पेपर के माध्यम से ई—वोटिंग की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। जो सदस्य पहले ही रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चूके हैं, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद लेकिन कट—ऑफ तिथि को या उससे पहले कंपनी के सदस्य बनने वाले

के लिए संवीक्षक के रूप में एसबीआर एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर श्री रोहित बाथम, कंपनी सचिव को

व्यक्ति genomicvalley@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि ऐसा सदस्य पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के बारे में किसी भी शिकायत की स्थिति में, सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं या सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर जा सकते हैं और यदि आपके पास ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(''एफएक्यू'') और ई—वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं। या 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं या श्री राकेश दलवी (022–23058542) से संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई— 400013 को संबोधित किया जा सकता है। सदस्यगण ऊपर उल्लिखित ई–मेल आईडी अर्थात् genomicvalley@gmail.com या पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी

> कते जीनोमिक वैली बॉयोटेक लिमिटेड हस्ता./-योगेश अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक एसएमई सेन्टर, 65, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद (15651) श्री रिक-39220341306

[ $farter{1}$ ] [

**जैसा कि**, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 17.03.2023 जारी कर ऋणधारक श्री रिंकू सिंह, पुत्र श्री चतुर सिंह, मकान सं. 517, 45 फीट रोड, भारत कॉलोनी, खेरी कलान, फरीदाबाद-121002, हरियाणा को को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 17.03.2023 को रु. 19,14,681/- (रु. उन्नीस लाख चौदह हजार छ: सौ इक्यासी मात्र) तथा अन्य चार्जेज एवं **ब्याज वापस** वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

को सूचित किया जाता है कि आज, 4 सितम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता

वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय इस सचना में वर्णित राशि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। बैंक को देय आपकी देयता (कुल) रु. 19,14,681/- (उन्नीस लाख चौदह हजार छः सौ इक्यासी मात्र) 17.03.2023 को तथा उस पर अन्य चार्जेज, लागत आदि है।

वाहन का विवरण

मोटर वाहन-बॉडी टाइप-टाटा मोटर्स लि. मॉडल नाम-अल्ट्रा 1412497CR/45WB, चेसिस नं. MAT767152L7B03207 इंजिन नं. 497TC41BZX8061303975 पंजी सं. HR38AB3750 तिथि: 08.09.2023, स्थानः फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक



कब्जा सूचना

[सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 17.03.2023 जारी कर ऋणधारक श्री राम चन्दर, पुत्र श्री प्रभु, मकान सं. यू-245, भगत सिंह कॉलोनी, एनएच-5, एनआईटी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 17.03.2023 को **रु. 20,24,062**/- **(रु. बीस लाख** चौबीस हजार बासठ मात्र) तथा 17.03.2023 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 4 सितम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 वे साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसार इस सूचना में वर्णित राशि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। बैंक को देय आपकी देयता (कुल) रु. 20,24,062/- (बीस लाख चौबीस हजार बासठ मात्र) 17.03.2023 को तथा अन्य चार्जेज तथा उस पर ब्याज है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मोटर वाहन-बॉडी टाइप-टाटा मोटर्स लि. मॉडल नं.-टाटा LPT1512CRX48WB BS IV, चेसिस नं MAT544066L7A01480 इंजिन नं. 497TC41AZX802582 पंजी सं. HR38AB4235 स्थानः फरीदाबाद

पैरामाउण्ट कम्युनिकेशन्स लि. **सीआईएन**: एल७४८९९डीएल१९९४पीएलसी०६१२९५ पंजी. कार्यालयः केएच-433, मौलसरी एवैन्यू, वेस्ट एंड ग्रीन्स, रंगपुरी, नई दिल्ली-110037

भारतीय स्टेट बैंक

PARAMOUNT

फोन: 011-45618800, फैक्स: 011-25893719/20 ईमेलः pcl@paramountcables.com, वेबसाईटः www.paramountcables.com वीसी (विडियो कान्फ्रेसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों) से आयोजित की जाने वाली पैरामाउण्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड की 29वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद्द्वारा सुचना दी जाती है कि पैरामाउण्ट कम्युनिकेशन्स लि. के सदस्यों की 29 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा. वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जानी अनुसूचित है। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022 दिनांकित क्रमशः 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021 तथा 5 मई, 2022 क्रमशः और परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 के अनुसरण में (यहां इसमें इसके बाद सामृहिक रूप में "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) और 'सेबी-परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्गत समस्त अन्य लाग्योग्य और परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में होगी जिसमें एजीएम की सुचना में वर्णित सामान्य और विशेष व्यवसायों का निष्पादन किया जाएगा। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात् केएच-433, मौलसरी एवैन्यू, वेस्टएन्ड ग्रीन्स, रंगपुरी, नई दिल्ली-

110037 को एजीएम के उद्देश्य से आयोजन स्थल माना जायेगा। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक आम सभा की सूचना, निदेशकों का रिपोर्ट, ऑडिटरों का रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तथा रिमोट ई-वोटिंग के विवरण इलेक्ट्रानिक माध्यमों से ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी, कम्पनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के पास पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम

की सूचना का ईमेल भेजने की पूर्णता तिथि 6 सितम्बर, 2023 थी। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है तो कृपया वित्तीय वर्ष 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिये लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिये अपनी ईमेल-आईडी पंजीकृत करने के लिये नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:-

अभौतिक ॑शियरधारकों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) की दी गई सलाह के आधार पर नियत प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपने विवरण पंजीकत/अद्यतनीकत करें।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की 29 वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य के लिए अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बैंक खाते का विवरण और / या अन्य विवरण फॉर्म-आईएसआर-1 में और सेबी द्वारा निर्धारित अन्य प्रासंगिक फॉर्म में भरकर कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम सेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नोबल हाइट्स पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच-2, सी- 1. ब्लॉक, एलएससी, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दूरभाषः 011-41410592/93/94 टेलीफैक्सः 011 - 41410591, ईमेल आईडीः kye@linkintime.co.in वेबसाइटः www.linkintime.co.in के पास प्रस्तुत करें। इस संदर्भ में सेवी द्वारा निर्दिष्ट संबंधित प्रपत्र Investor Services-kyc compliance के अंतर्गत आरटीए की वेबसाईट www.linktime.co.in पर उपलब्ध है तथा साथ ही शेयरधारकों की जानकारी तथा, उपयोग के लिये कम्पनी की वेबसाईट www.paramountcablas.com/updates पर भी उपलब्ध है। आप से आग्रह है

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित तथा सेवी (सूचीधन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में इलेक्ट्रोनिक रूप से मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने आरटीए अर्थात लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाऐं प्राप्त की है। रिपोर्ट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। उसके बाद मतदान के लिये ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं और कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 21 सितम्बर, 2023 को शेयर धारित करते हैं, वे enotices@linkintime.co.in

कि कपया इसकी ध्यान रखें तथा समय पर अपना विवरण अद्यतन करा लें।

पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन को अनुमीत नहीं दी जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किये होने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु ये पुनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होगे, ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिये अभिशेक मित्तल एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफ 7273 एवं सीपी नं. 7943) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में

संलग्न टिप्पणी में दी गई है। 5. हेल्पडेस्कः डिमैट पद्धत्ति में प्रतिभृतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिये हेल्पडेस्कः यदि शेयरधारक/सदस्य जो डिमैट पद्धति में प्रतिभृतियां धारित करते हैं को डिपोजिटरी अर्थात-एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित कोई तकनीकी समस्या हो तो वे नीचे दिये गये संबंधित हेल्प डेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं:

il l	लॉगिन टाइप	हेल्पडेस्क का विवरण	
ने दे से से ह	धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारको	लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्यगण evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क करें अथवा 022-48867000 तथा 022-24997000 पर कॉल करें।	
		लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नं.	

1800225533 पर कॉल करें। भौतिक पद्धति में प्रतिभृतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिये हेल्पडेस्कः लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्यगण enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लिंक इन्टाइम इन्स्टावोट हेल्पडेस्क से सम्पर्क करें अथवा टेली.: 022-49186000 पर सम्पर्क करें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 191 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के साथ पठित सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 से गुरुवार, 28 सितम्बर, 2023 (दोनो दिवस सहित) तक वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों का अभिलेख प्राप्त करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

. एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.paramountcables.com, स्टॉक एक्सचैंजो (एनएसई एवं बीएसई) की वेबसाईटों तथा लिंक इन्टाइम वेबसाईट instavote-Linkintime पर भी उपलब्ध होंगे।

कृते, पैरामाउण्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

राशि गोयल तिथि: 07 सितम्बर, 2023 स्थानः नई दिल्ली अनुपालन अधिकारी एवं कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

# सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड

वार्षिक आम बैठक और बुक बंद करने की सूचना

प्रदान की गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से बैठक में कार्यवाही निष्पादित किया जा सकता है।

ा. सदस्यों का मतदान अधिकार **गुरुवार, 21 सितंबर 2023** की कट—ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी

यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

**ज.** एजीएम में वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने ई—वोटिंग व माध्यम से अपना तोट नहीं हाला है ते बैठक में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। झ. सदस्य द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वह 30वीं एजीएम

. कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए एसपीवी एंड कंपनी, कंपनी सचिव 30वीं एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.sudev.co.in के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

आपका विश्वासी, कृते सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता /-ऋमिका तलेसरा दिनांकः 06 सितंबर, 2023 सदस्यता संख्याःए 43461 स्थानः नोएडा

## लामटड

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सभा तथा उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट (www.sabarimala.co.in) तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात्

उस पर ऑडिटरों के रिपोर्ट तथा निदेशकों के रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष

जो सदस्य भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करते हैं तथा जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास पंजीकृत

सदस्यों द्वारा मतदान करने (ई-वोटिंग) की सुविधा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुपालन में आगामी वार्षिक साधारण

स्थानः नर्ड दिल्ली (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

तदद्वारा सूचित किया जाता है कि जीनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम) शनिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छर्रा मार्ग, पी. ओ. टंडाहेड़ी, तहसील—बहादुरगढ़, जनपद—झज्जर, हरियाणा—124507 में आयोजित

की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42

अनुसार विवरण नीचे दिये गये हैं:

बोर्ड के आदेशानुसार